

स्थापना : 1977

पंजीयन क्रमांक : 156 दिनांक 30-08-1977



श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इंदौर

श्रम शिविर, 123, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर- 452 003 (म.प्र.)

Phone : 0731-2534604, 4875102

E-mail : snk.indore@gmail.com

www.shramiknagrikbank.com



“ऑपरेशन सिन्दूर न्याय की हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।”
“यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ हमारे अडिग संकल्प को दर्शाता है।”



वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25

● दिनांक : 14 सितम्बर, 2025 (रविवार) ● समय : प्रातः 9.00 बजे

स्थान : गांधी मजदूर स्मारक निधि ट्रस्ट सभागृह 123, देवी अहिल्या मार्ग, श्रमशिविर, इंदौर

नोट : सदस्य को साधारण सभा में सदस्यता पास-बुक लाना अनिवार्य है।



International Year of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World

बैंक के आज तक के अध्यक्ष

1.	स्व.श्री मथुरालाल जी शर्मा	प्रारम्भ से 01.09.82 तक
2.	स्व.श्री गोविन्द विनायक जी देशमुख	11.01.83 से 19.02.85 तक
3.	स्व.श्री बालकृष्ण जी मरमट	20.02.85 से 03.06.85 तक
4.	स्व.श्री मोहनलालजी ज्ञानी	04.06.85 से 01.01.89 तक
5.	स्व.श्री जुगलकिशोरजी चौकसे	02.01.89 से 04.09.06 तक
6.	श्री ओ. पी. गुप्ता जी सहायक आयुक्त अंकेक्षण	05.09.06 से 04.09.09 तक
7.	श्री दीपक जुगलकिशोरजी चौकसे	15.11.09 से 31.12.19 तक
8.	श्री जी.एस. परिहार प्रशासक	14.12.19 से 16.02.20 तक
9.	श्रीमती सोनू दीपकजी चौकसे	20.02.20 से 15.02.25 तक
10.	श्री ए.पी.एस. बिलोदियाजी प्रशासक	27.02.25 से अनवरत

सदस्यों के आधार/पहचान नम्बर व मोबाईल नम्बर की सूचना



बैंक के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि बैंक में नवीन संचालक मंडल के चुनाव की प्रक्रिया हेतु सभी सदस्यों के आधार/पहचान नम्बर एवं मोबाईल नम्बर आवश्यक है। अतः जिन सदस्यों ने अपने आधार/पहचान नम्बर एवं मोबाईल नम्बर अपडेट नहीं कराये हैं वो अतिशीघ्र बैंक कार्यालय में आकर अपडेट करावे।

-प्रबंधक



वार्षिक साधारण सभा की सूचना

28.08.2025

सदस्य महानुभव,

श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि., इन्दौर की अड़तालीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 14 सितम्बर 2025, रविवार को प्रातः 9.00 बजे गाँधी मजदूर स्मारक निधि ट्रस्ट सभागृह 123 देवी अहिल्या मार्ग श्रमशिविर, इन्दौर पर आयोजित की गई है, यदि कोरम पूर्ण नहीं हुआ तो साधारण सभा स्थागित की जाकर उसी दिन, उसी स्थान पर आधे घंटे बाद अर्थात् प्रातः 9.30 बजे स्थगित बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी, आपकी समय पर उपस्थिति प्रार्थनीय है।

वार्षिक साधारण सभा की बैठक में निम्नांकित विषयों पर विचार किया जाएगा।

विषय सूची

1. गत वार्षिक साधारण सभा वर्ष 22 सितम्बर 2024 की कार्यवाही की पुष्टि करना।
2. वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन का वाचन एवं अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रक तथा लाभ-हानि पत्रक स्वीकृत करना।
3. वर्ष 2026-27 के लिए तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम को स्वीकृत करना।
4. प्रस्तावित लाभ विभाजन वित्तीय वर्ष 2024-25 को स्वीकृति प्रदान करना।
5. वर्ष 2026-27 के अनुमानित आयव्यय पत्रक(बजट)स्वीकृति प्रदान करना एवं वर्ष 2024-25 में बजट से अधिक व्यय हुई राशि को स्वीकृति प्रदान करना।
6. वर्ष 2025-26 के अंकेक्षण कार्य हेतु संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति की पुष्टि प्रदान करना।
7. एक मुश्त समझौता योजना लागू करने के सम्बन्ध में।
8. अन्य विषय श्रीमान प्रशासक महोदय की अनुमति से।

श्री ए.पी.एस.बिलोदिया

सहायक आयुक्त सहकारिता एवं प्रशासक
श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि0 इन्दौर

- नोट :**
1. उपरोक्त विषय सूची से सम्बन्धित किसी विषय पर यदि कोई महानुभाव को कोई सुझाव देना हो, प्रश्न पूछना हो तो कृपया सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व लिखित में बैंक प्रबंधन को कार्यालयीन समय में सूचित कर सकते हैं।
 2. जिन सदस्यों के स्थानीय पते परिवर्तित हुए हैं वे सदस्य कृपया वार्षिक सभा की तिथि को अथवा कार्यालयीन समय में परिवर्तित पते की जानकारी प्रस्तुत करें।
 3. सदस्यों ने यदि उनके वारिसों के नाम दर्ज नहीं किये हैं तो कृपया उसे बैंक के निर्धारित फार्म पर दर्ज करावें। साथ ही स्वयं तथा वारिस का पासपोर्ट साईज फोटो कार्यालय में जमा करावें। सदस्यता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें।
 4. जिन सदस्यों ने अंश प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, वे अपना आधारकार्ड लेकर आये व कार्यालयीन समय में आकर प्राप्त करें।
 5. साधारण सभा में प्रवेश केवल बैंक के सदस्यों को ही दिया जायेगा अतः सदस्यता पासबुक अवश्य लावे एवं असुविधा से बचे। अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 6. मुद्रण में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो कार्यालयीन प्रति ही वैध मानी जावेगी।



श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इंदौर

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025

सम्माननीय सदस्य महानुभाव ,

आपके बैंक का वर्ष 2024-25 का लेखा-जोखा , लेन-देन पत्रक व लाभ-हानि पत्रक प्रगति विवरण के साथ निम्नानुसार प्रस्तुत है।

वार्षिक प्रतिवेदन के अवलोकन से आपको ज्ञात होगा कि चार वित्तीय वर्षों में बैंक ने जो प्रगति की है , वह आपके सहयोग बैंक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रयासों का प्रतिफल है। बैंक की प्रगति में सदस्यों व अमानतदारों का सहयोग रहा है।

बैंक का प्रबन्ध :-

बैंक के संचालक मण्डल का कार्यकाल 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड इन्दौर के कार्य संचालन हेतु अथवा संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न होने तक श्री ए.पी.एस. बिलोदिया सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक (अंकेक्षण)सहकारी संस्थाएं जिला इन्दौर को विभागीय प्रशासक नियुक्त किया है।

सदस्यता एवं अंश-पूँजी :-

31 मार्च 2024 पर बैंक की सदस्य संख्या 5778 थी , जो कि 31 मार्च 2025 पर 5721 हैं। इसी प्रकार से 31 मार्च 2024 पर बैंक की प्रदत्त अंश-पूँजी रुपये 168.49 लाख थी , जो कि 31 मार्च 2025 पर 181.64 लाख हो गई।

(राशि रु. लाखों में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
1	सदस्य संख्या	5926	5862	5778	5721
2	अंश-पूँजी	148.61	162.05	168.49	181.64

कोष एवं निधियाँ :-

बैंक की विभिन्न प्रकार की निधियों एवं कोष की स्थिति निम्नानुसार है-

(राशि रु. लाखों में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
1	रक्षित कोष	50.01	52.17	60.00	68.66
2	डूबत ऋण संदिग्ध निधि	177.97	188.40	189.96	191.96
3	वाहन निधि	6.00	6.00	6.00	6.00
4	भवन कोष	47.25	47.70	48.00	56.83
5	धर्मादा निधि	0.40	0.70	1.30	1.99
6	अध्ययन भ्रमण निधि	3.50	3.50	3.50	3.50
7	कम्प्यूटरीकृत शाखा	11.50	11.50	11.50	11.50
8	मानक सम्पत्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान	5.00	5.00	5.00	5.00
9	प्रावधान ब्याज बाकी	137.19	119.78	92.94	94.31
10	प्रावधान प्रीमियम ऑन सरकारी प्रतिभूति	5.50	5.50	5.50	5.50
11	प्रावधान फर्नीचर	4.15	4.15	4.15	4.15
	योग	448.47	444.40	427.85	449.40

अपने बैंकिंग लेनदेन के लिए सार्वजनिक, खुले एवं मुफ्त नेटवर्क का प्रयोग न करें।



अमानतें—

वर्षारम्भ में विभिन्न प्रकार की अमानतें रु. 2766.90. लाख थी , जो कि वर्षान्त 31 मार्च 2025 पर रु. 2967.15 लाख हो गई हैं। प्रत्येक जमाकर्ता की 5 लाख तक अमानतों के भुगतान की ग्यारन्टी डिपोजिट इन्श्योरेंस कार्पोरेशन द्वारा दी गई हैं।

अमानतें बढ़ाने में आपके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए आप सभी महानुभाव से निवेदन है कि बैंक में अपना बचत खाता/रेकरिंग खाता खोलकर बैंक प्रगति में सहयोग प्रदान करें।

(राशि रु. लाखों में)

अ.कं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
1	मियादी अमानत	264.87	267.09	262.32	237.37
2	डबल डिपोजिट	1412.91	1505.75	1558.36	1655.57
3	सेविंग अमानत व्यक्तिगत	391.44	429.50	415.34	478.90
4	सेविंग अमानत सहकारी संस्था	35.23	41.29	58.94	107.76
5	करन्ट अमानत	8.96	23.77	21.56	14.15
6	रेकरिंग अमानत	56.24	67.48	89.97	76.21
7	अनिवार्य अमानत	217.80	224.57	232.80	254.94
8	दैनिक लघुबचत योजना	58.41	77.45	89.97	89.54

ऋण का विवरण :-

बैंक द्वारा अल्पावधि, मध्यावधि एवं दीर्घावधि ऋण संयुक्त पंजीयक महोदय सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग इन्दौर से अनुमोदित आदर्श ऋण नियम अपनाए जाकर सदस्यों को आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्ग के सदस्यों को छोटे छोटे उद्योग धन्धे, व्यापार, स्वरोजगार एवं भवन निर्माण के लिए आर्थिक विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ऋण वितरण किया गया है।

(राशि रु. लाखों में)

अ.कं.	वर्ष	वर्षारंभ पर बाकी	वर्षान्त पर शेष	वृद्धि/कमी
1	2021—22	1442.19	1403.58	38.61
2	2022—23	1403.58	1764.47	360.89
3	2023—24	1764.47	1815.12	50.65
4	2024—25	1815.12	2021.22	206.10

विनियोजन —

बैंक द्वारा अपनी पूंजी का विनियोजन अन्य बैंको में अमानत के रूप में तथा अन्य सहकारी संस्थाओं के अंश क़य करने में किया गया है। गत 3 वर्षों में विनियोजन की स्थिति निम्नानुसार रही है—

आप अपने खाते और लॉकर के लिये नाभिनी जरूर दर्ज करें ।



श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इंदौर

कं.	वर्ष	विनियोजित रकम
1	2022-23	839.39 लाख
2	2023-24	786.74 लाख
3	2024-25	774.70 लाख

इसके अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूति रु. 784.12 लाख की कय की गई है।

कालातीत ऋण एवं दावे बजावरी –

वर्षान्त पर 31 मार्च 2025 पर कुल ऋण रु. 2021.22 लाख में से रु. 86.89 लाख कालातीत ऋण रहा है जो कुल बकाया ऋण का 4.30 प्रतिशत है।

- (अ) वर्षान्त पर धारा 138 के दावे के कुल 20 प्रकरण राशि रु. 6.65 लाख के लंबित थे।
 (ब) वर्षारंभ पर बैंक को न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के पश्चात निष्पादन द्वारा वसूली की धारा 85 के अंतर्गत 35 प्रकरण राशि रु. 17.74 लाख लंबित थे। सरफेशी एक्ट 2002 के तहत 12 प्रकरण राशि रु. 57.29 लाख के लंबित है।

बैंक में त्रुटिकर्ता सदस्यों से सम्पर्क करके वसूली प्राप्त करने के प्रयास किये परन्तु इसमें सफलता नहीं मिलने पर वसूली की कानूनी कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ा है। त्रुटिकर्ता सदस्यों के विरुद्ध दावे लगाये गये हैं एवं अवार्ड प्राप्त प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही जारी है। बैंक की प्रगति में आप लोगो के सहयोग की अत्याधिक आवश्यकता है। आप लोग नियमित किश्त जमा करेंगे तो ही आपकी अपनी बैंक प्रगति कर सकेगी। अतः सभी ऋणी सदस्यों से निवेदन है कि नियमित किश्त जमा करें।

लाकर्स सुविधा :- बैंक के सदस्य महानुभावों एवं अमानतदारों की बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा हेतु प्रधान कार्यालय देवी अहिल्या मार्ग श्रम शिविर इंदौर में लाकर्स सुविधा उपलब्ध हैं। सदस्य महानुभावों से अपेक्षा है कि इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ लें। बैंक में लाकर्स किफायती दर पर प्राप्त होते हैं।

ए.टी.एम. डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग :-

बैंक द्वारा अपने सदस्यों, व्यापारी एवं ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग एटीएम डेबिट कार्ड / आइ एम पी एस सुविधा / यू पी आय / RTGS, NEFT सुविधा प्रारम्भ हो चुकी हैं। सदस्य ग्राहक खातेदार उक्त सुविधा का लाभ ले सकते हैं। स्वयं घर बैठे अपने मोबाइल एप के माध्यम से किसी भी शहर में कहीं भी रूपयों का लेन-देन कर सकते हैं, क्यू आर कोड के जरिये आनलाइन रकम हस्तांतरित कर सकते हैं।

क्लीयरिंग सुविधा :-

बैंक सदस्यों को CTS क्लीयरिंग सुविधा प्रदान की जा रही है। शीघ्र ही आप हर तीन घन्टे में CTS चैक का भुगतान देश के किसी भी शहर में ले सकते हैं।

आभार :-

संचालक मण्डल आप सभी महानुभावों, सहकारिता विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों, म. प्र. राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियों, सहकारी बैंकों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के सहयोग व मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं एवं बैंक अपेक्षा करता है कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा।

बैंक की प्रगति के लिए बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी सहयोग सराहनीय रहा है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं तथा भविष्य में भी उनके इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है।

श्री ए.पी.एस.बिलोदिया

सहायक आयुक्त सहकारिता एवं प्रशासक
 श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि0 इन्दौर

कर्ज किश्त नियमित जमा करे दण्ड ब्याज से बचें ।



वार्षिक लक्ष्य कार्यक्रम

बैंक की विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बैंक की प्रगति में आप सब का सक्रिय योगदान रहा। वर्ष 2025-2026 में निम्नानुसार लक्ष्य हमने निर्धारित कर प्रस्तावित किये हैं। इनको प्राप्ति में आपका सहयोग अपेक्षित है:-

(1) सदस्यता में वृद्धि	250 सदस्यता बढ़ाई जावेगी।
(2) अंशपूँजी में वृद्धि	25 लाख बढ़ाई जावेगी।
(3) जमा अमानत में वृद्धि	100 लाख तक बढ़ाई जावेगी।
(4) ऋण वितरण में वृद्धि	200 लाख तक बढ़ाई जावेगी।
(5) वसूली	80 प्रतिशत तक बढ़ाई जावेगी।

लाभ का विभाजन वर्ष 2024-25

बैंक को वर्ष 2024-25 में रु. 31.62 लाख का लाभ हुआ था जिसमें से निम्न प्रावधान किया जाना है:-		
		रु. लाखों में
	वर्ष 2024-25 का लाभ	रु. 31.62
(1)	जिला सहकारी संघ चन्दा	रु. 0.10
(2)	प्रशिक्षण निधि (लाभ का 2 प्रतिशत)	रु. 0.64
		रु. 30.88
इसके अतिरिक्त निम्नानुसार निम्न प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है :-		
(1)	रक्षित निधि प्रावधान 25 प्रतिशत	रु. 7.91
(2)	धर्मार्थ निधि लाभ का 1 प्रतिशत	रु. 0.32
(3)	भवन निधि प्रावधान	रु. 5.00
(4)	डूबत ऋण निधि लाभ का 5 प्रतिशत	रु. 1.60
	योग-	रु. 14.83

इस प्रकार शेष शुद्ध लाभ रु. 16.05 लाख शेष रहा पूर्व में संचित लाभ रु. 94.02 लाख था। शेष संचित लाभ रु. 94.02 लाख में शेष शुद्ध लाभ रु. 16.05 लाख जोड़कर संचित लाभ रु. 110.07 लाख हो जावेगा।

सदस्यों से निवेदन

भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों अनुसार भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री (CERSAI) पर अब प्रत्येक बैंक के खाताधारकों को अपनी C.K.Y.C. करना अनिवार्य है। यह एक वैधानिक प्रक्रिया है। अतः सम्मानीय सदस्यों से निवेदन है कि C.K.Y.C. पूर्ति के लिए बैंक में आकर बैंक के K.Y.C. फार्म के साथ अपना फोटो, पेन कार्ड, मोबाईल नम्बर एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करें। अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों अनुसार आपके खाते में लेन-देन पर रोक लगा दी जावेगी।



श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इंदौर

नफा नुकसान

क्र.	01	विवरण		31.03.2025
1.		ब्याज दिया अमानतों पर		
	1.	ब्याज दिया मियादी अमानत	18,49,797.00	
	2.	ब्याज दिया डबल डिपाजिट	1,07,73,293.00	
	3.	ब्याज दिया सेविंग अमानत	16,02,890.00	
	4.	ब्याज दिया अनवार्य अमानत	9,32,611.29	
	5.	ब्याज दिया दै.ल.ब.यो.	2,76,289.00	
	6.	ब्याज दिया रेकरिंग अमानत	5,67,183.00	
		योग		1,63,33,480.29
2.		वेतन एवं भत्ते		
	1.	मूल वेतन	18,88,970.00	
	2.	महंगाई भत्ता	22,43,424.00	
	3.	अन्य भत्ते	1,43,444.00	
	4.	प्रा. फण्ड कान्टीब्यूशन	4,56,308.00	
	5.	ग्रेच्युटी	74,725.00	
		योग		48,06,871.00
3.	1.	रेंट, रेट्स एण्ड टेक्सेस	1,15,100.00	
	2.	बिजली व्यय	51,839.00	
		योग		1,66,939.00
5.		स्टेशनरी एण्ड प्रिंटिंग		31,853.06
6.		घसारा डेड स्टॉक		97,258.00
7.	1	बैठक भत्ता	47,800.00	
	2.	यात्रा भत्ता	18,942.00	
	3.	बैठक खर्च	12,790.00	
		योग		79,532.00
8.	1.	अंकेक्षण शुल्क	3,49,825.00	
	2.	लीगल एण्ड प्रोफेशनल फीस	1,700.00	
	3.	पोस्टेज एण्ड टेलिफोन	31,540.00	
		योग		3,83,065.00
		योग आगे ले गये		2,18,98,998.35



पत्रक 31.03.2025

क्र.	01	विवरण		31.03.2025
1.		ब्याज प्राप्त अमानतों पर		
	1.	ब्याज प्राप्त सेविंग इं.प्री.कॉ.ऑप. बैंक	6,220.00	
	2.	ब्याज प्राप्त सेविंग म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	1,162.20	
	3.	ब्याज प्राप्त मियादी अमानत एक्सीस बैंक	69,042.00	
	4.	ब्याज प्राप्त डबल डिपाजिट इं.प्री.कॉ.ऑप. बैंक	2,99,415.00	
	5.	ब्याज प्राप्त सरकारी प्रतिभूति	57,30,091.11	
	6.	ब्याज प्राप्त मियादी अमानत सूर्योदय बैंक	1,75,000.00	
	7.	ब्याज प्राप्त मियादी अमानत फिन केयर बैंक	1,75,480.00	
	8.	ब्याज प्राप्त डबल डिपाजिट इक्विटी बैंक	1,79,371.00	
	9.	ब्याज प्राप्त मियादी अमानत उत्कर्ष बैंक	4,18,651.00	
	10.	ब्याज प्राप्त मियादी अमानत सेन्ट बैंक	1,79,004.00	
		योग		72,33,436.31
2.		ब्याज प्राप्त कर्जों पर		
	1.	ब्याज प्राप्त हाउसिंग ऋण	13,60,796.00	
	2.	ब्याज प्राप्त स्वनियोजित ऋण	23,37,405.00	
	3.	ब्याज प्राप्त उपभोग ऋण	82,239.00	
	4.	ब्याज प्राप्त किराना/व्यापार ऋण	20,36,213.00	
	5.	ब्याज प्राप्त वाहन परिचालन	5,196.00	
	6.	ब्याज प्राप्त सी.सी. ऋण	3,40,023.00	
	7.	ब्याज प्राप्त शिक्षा ऋण	1,22,963.00	
	8.	ब्याज प्राप्त धान्य कर्ज	2,963.00	
	9.	ब्याज प्राप्त मिडियम टर्म लोन बिजनेस	22,13,514.00	
	10.	ब्याज प्राप्त लॉग टर्म बिजनेस लोन	39,35,446.00	
	11.	ब्याज प्राप्त लॉग टर्म हाउसिंग लोन	17,68,056.00	
	12.	ब्याज प्राप्त गोल्ड लोन	2,13,941.00	
	13.	ब्याज प्राप्त लोन अगेस्ट प्रापर्टी	25,06,108.00	
	14.	ब्याज प्राप्त अधिविकर्ष अगेस्ट प्रापर्टी	9,68,513.00	
		योग		1,78,93,376.00
		योग आगे ले गये		2,51,26,812.31



श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इंदौर

नफा नुकसान

क्र.	01	विवरण		31.03.2025
		पिछला योग आगे लाये		2,18,98,998.35
10.	1.	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर मेन्टेनेस खर्च	7,49,800.00	
	2.	रिपेयर व मेन्टेनेस खर्च	27,645.00	
		योग		7,77,445.00
11.		अन्य खर्च व प्रावधान		
	1.	बीमा	5,18,891.00	
	2.	कमीशन वै.ल.ब. योजना	3,71,366.82	
	3.	किरकोल खर्च	63,217.00	
	4.	ड्रबत ऋण प्रावधान	2,00,000.00	
	5.	ग्रंथालय एवं समाचार पत्र	22,077.00	
	6.	साधारण सभा खर्च	2,12,749.00	
	7.	दिपावली खर्च	45,544.58	
	8.	वाहन वसूली खर्च	5,594.08	
	9.	स्वागत खर्च	6,740.00	
	10.	गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स	1,29,268.00	
	11.	आयकर	7,46,621.00	
	12.	प्रोफेशनल टैक्स	2,500.00	
	13.	अर्जित अवकाश भुगतान	1,50,185.00	
	14.	स्थापना खर्च	2,000.00	
	15.	अन्य बैंक मेन्टेनेस खर्च	3,200.39	
	16.	ए.टी.एम. एण्ड मोबाईल बैंकिंग खर्च	1,141.26	
	17.	संपत्ति कर भुगतान	91,070.00	
	18.	आयएमपीएस रिलेटेड चार्जेस	8,089.40	
	19.	यूपीआय रिलेटेड चार्जेस	3,416.35	
		योग		25,83,617.22
12.		लाभ (2024-25)	31,62,780.82	31,62,780.82
		महायोग		2,84,22,895.39

राधेश्याम चौहान

प्रबंधक

श्रमिक नागरिक सह. बैंक लि. इंदौर



पत्रक 31.03.2025

क्र.	01	विवरण		31.03.2025
		पिछला योग आगे लाये		2,51,26,812.31
3.		ब्याज प्राप्त तारण कर्जों पर		
	1.	ब्याज प्राप्त अधिविकर्ष	2,78,551.00	
	2.	ब्याज प्राप्त दै.ल.ब. योजना तारण कर्ज	10,802.00	
	3.	ब्याज प्राप्त मियादी अमानत तारण कर्ज	3,20,300.00	
	4.	ब्याज प्राप्त रैंकरिंग अमानत तारण कर्ज	45,206.00	
	5.	ब्याज प्राप्त डबलडिपाजिट तारण कर्ज	3,78,453.00	
	6.	ब्याज प्राप्त मियादी अमानत पेटे ओडी (अधिविकर्ष)	5,712.00	
		योग		10,39,024.00
4.		अन्य आय		
	1.	चौकसी मण्डल	6,725.12	
	2.	विविध आय	1,00,770.34	
	3.	लॉकर्स किराया	28,000.00	
	4.	जाहिर सूचना	3,913.92	
	5.	प्रवेश शुल्क अंशपूजी	2,238.08	
	6.	एन.इ.एफ.टी. एवं आर.टी.जी.एस. चार्जेस	3,767.24	
	7.	पासबुक एवं चैकबुक चार्जेस	4,415.08	
	8.	अन्य दस्तावेज आय	13,362.26	
	9.	चैक रिटर्न व एसीएच रिटर्न चार्जेस	9,350.00	
	10.	आल लोन पेनल चार्जेस	48,149.94	
	11.	सी.आय.सी. मेम्बरशीप	7,193.13	
	12.	एटीएम रिलेटेड चार्जेस	6,600.00	
		योग		2,34,485.11
5.		लिक्विड फण्ड रिडक्शन से प्राप्त लाभ		
	1.	एक्सीस लिक्विड फण्ड	5,60,669.06	
	2.	एस.बी.आई. लिक्विड फण्ड	7,23,479.52	
	3.	कोटक महेन्द्रा लिक्विड फण्ड	7,38,425.39	
		योग		20,22,573.97
		महायोग		2,84,22,895.39

ए.पी.एस. बिलोदिया
सहायक आयुक्त सहकारिता एवं प्रशासक
श्रमिक नागरिक सह. बैंक लि. इंदौर

राकेश खण्डेलवाल एण्ड एसोसिएट्स कम्पनी (CA)
एफ.आर.एन. नं. 003108C
(सी.ए. राकेश खण्डेलवाल)
पार्टनर मेम्बरशीप नं. 072259



श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इंदौर

स्थिति विवरण

पिछले वर्ष की बाकी 23-24		दायित्व	वर्ष 31.03.2025
		अंश पूँजी	
2,50,00,000.00		अधिकृत अंश पूँजी प्रत्येक अंश रुपये 100	2,50,00,000.00
		प्रदत्त एवं चुकता अंश पूँजी	
1,68,49,408.63	01	अंश पूँजी	1,81,64,047.00
1,68,49,408.00		योग	1,81,64,047.00
		रक्षित निधि व फण्ड	
59,99,570.00	01	रक्षित निधि	68,65,710.00
1,89,96,000.00	02	डुबत ऋण निधि	1,91,96,000.00
5,00,000.00	03	प्रावधान मानक संपत्ति	5,00,000.00
48,00,191.00	04	प्रावधान बिलडिंग फण्ड	56,83,191.00
6,00,000.00	05	प्रावधान वाहन निधि	6,00,000.00
1,29,600.00	06	प्रावधान धर्माथ व कल्याणनिधि	1,98,600.00
3,50,000.00	07	प्रावधान अध्ययन भ्रमण निधि	3,50,000.00
11,50,000.00	08	प्रावधान कम्प्यूटर शाखा निधि	11,50,000.00
5,50,000.00	09	प्रावधान सरकारी प्रतिभूति प्रीमियम	5,50,000.00
4,15,056.00	10	प्रावधान फर्नीचर व फिक्स्स	4,15,056.00
5,00,000.00	11	प्रावधान स्पेशल रिजर्व	5,00,000.00
94,02,334.21	12	संचित लाभ	94,01,877.96
34,62,543.75	13	लाभ (2024-25)	31,62,780.82
4,68,55,294.96		योग	4,85,73,215.78
		अमानते	
2,62,32,158.00	01	मियादी अमानते व्यक्तिगत	2,37,37,058.00
15,58,36,242.00	02	डबल डिपाजिट व्यक्तिगत	16,55,65,920.00
4,15,34,099.33	03	सेविंग अमानत व्यक्तिगत	4,78,90,187.69
58,94,450.79	04	सेविंग अमानत सहकारी संस्था	1,07,75,956.10
13,67,383.83	05	करन्ट अमानत	13,15,827.63
69,26,691.40	06	रेकरिंग अमानत	76,20,740.40
2,32,79,844.18	07	अनिवार्य अमानत	2,54,94,256.56
89,97,000.00	08	दैनिक लघु बचत योजना	89,53,618.00
55,52,897.84	09	इनआपरेटिव सेविंग खाते	50,22,945.92
7,88,828.23	10	इनआपरेटिव करन्ट खाते	99,498.43
2,44,759.40	11	इनआपरेटिव सेविंग सोसायटी खाते	2,38,697.53
27,66,54,355.00		योग	29,67,14,706.26
34,03,59,058.59		योग आगे ले गये	36,34,51,969.04

यदि आपका एटीएम डेबिट कार्ड खो जाता है तो तुरन्त उसे ब्लॉक करें ।



पत्रक 31 मार्च 2025

पिछले वर्ष की बाकी 23-24		सम्पत्तियां	वर्ष 31.03.2025
59,57,182.00		नगदी सिल्लक	50,65,728.00
59,57,182.00		योग	50,65,728.00
		केश बैलेन्स बैंक्स	
1,54,990.50	01	सेविंग खाता इ.पी.को.ऑप. राजवाड़ा	1,61,210.50
30,306.67	02	सेविंग खाता म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	31,468.87
72,80,404.22	03	करन्ट खाता इ.पी.को.ऑप. बैंक	73,89,781.52
48,94,176.09	04	करन्ट खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	43,00,266.09
7,552.00	05	करन्ट खाता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	7,502.00
2,94,914.41	06	करन्ट खाता एक्सीस बैंक	7,24,625.47
5,05,942.98	07	करन्ट खाता पंजाब नेशनल बैंक	4,49,211.98
2,81,550.00	08	करन्ट खाता सुर्योदय स्मॉल फायनेन्स बैंक	1,12,800.00
1,08,16,404.41	09	करन्ट खाता आयडीवीआई बैंक 53172	1,10,84,994.41
13,01,645.45	10	करन्ट खाता आयडीवीआई बैंक 53163	16,33,942.84
2,37,471.97	11	करन्ट खाता आयडीवीआई बैंक 55417	1,95,875.67
72,601.21	12	करन्ट खाता आयडीवीआई आउटवर्ड 55426	46,080.73
1,61,051.00	13	करन्ट खाता उत्कर्ष बैंक	1,38,768.00
71,667.00	14	करन्ट खाता ए.यु. स्माल बैंक	71,667.00
33,62,633.92	15	करन्ट खाता यश बैंक आयएमपीएस	42,17,885.30
22,16,851.02	16	करन्ट खाता यश बैंक एनईएफटी	30,85,290.28
53,68,543.62	17	करन्ट यश बैंक यूपीआई	43,99,820.74
25,00,000.00	18	डबल डिपाजिट सुर्योदय स्मॉल फायनेन्स बैंक	25,00,000.00
20,55,855.00	19	डबल डिपाजिट इक्विटी बैंक	24,19,513.00
25,00,000.00	20	डबल डिपाजिट फिनकेयर बैंक	25,00,000.00
35,59,573.00	21	डबल डिपाजिट सेन्ट बैंक	0.00
50,00,000.00	22	डबल डिपाजिट उत्कर्ष बैंक	50,00,000.00
70,00,000.00	23	लिविड फण्ड ऑफ एक्सीस बैंक	80,00,000.00
1,00,00,000.00	24	लिविड फण्ड एस.बी.आई.	1,00,00,000.00
90,00,000.00	25	कोटक महिन्द्रा लिविड फण्ड	90,00,000.00
	1	विनियोग	
7,34,14,605.00	01	सरकारी प्रतिभूति	7,84,12,105.00
1,00,125.00	02	अंश इ.पी.को. ऑप. बैंक	1,00,125.00
1,250.00	03	अंश म.प्र. राज्य सहकारी मुद्रणालय	1,250.00
7,35,15,980.00		योग	7,85,13,480.00
15,21,90,114.47		योग	15,59,84,184.40
15,81,47,296.47		योग आगे ले गये	16,10,49,912.40

सदस्यता व ऋण फार्म में गलत जानकारी नहीं दें ।

[illegible]

अपने ऑन लाईन बैंकिंग पासवर्ड और पिन को समय-समय पर बदलते रहे ।



पत्रक 31 मार्च 2025

पिछले वर्ष की बाकी 23-24		सम्पत्तियां	वर्ष 31.03.2025
15,81,47,296.47		पिछला योग आगे लाये	16,10,49,912.40
		ऋण एवं अग्रिम	
1,33,54,753.29	01	हाउसिंग ऋण	1,61,60,602.29
2,40,06,193.25	02	स्वनियोजित ऋण	1,96,13,450.25
11,59,264.10	03	उपयोग ऋण	11,18,703.10
2,13,92,977.60	04	किराना/व्यापार ऋण	1,76,65,566.60
70,002.00	05	वाहन परिचालन ऋण	54,598.45
4,53,115.00	06	शिक्षा ऋण	3,35,065.00
54,16,097.87	07	क्लीन केश कडिट	48,56,750.17
41,25,892.45	08	अधिविकर्ष ऋण	40,54,455.05
25,05,324.00	09	मियादी अमानत विरुद्ध ओव्हर ड्राफ्ट	25,40,647.00
1,97,33,379.00	10	मीडियम टर्म बिजनेस लोन	1,79,21,784.00
3,15,74,009.00	11	लॉग टर्म बिजनेस लोन	2,33,56,587.00
1,11,65,329.00	12	लॉग टर्म हाउसिंग लोन	2,33,56,587.00
10,21,469.00	13	मियादी अमानत तारण कर्ज	15,17,703.00
53,51,767.00	14	डबल डिपाजिट तारण कर्ज	37,39,135.00
5,14,856.00	15	रेकरिंग अमानत तारण कर्ज	3,45,864.00
2,19,000.00	16	दैनिक लघु बचत योजना तारण कर्ज	1,50,000.00
9,030.00	17	धान्य कर्ज	9,662.00
2,92,22,249.00	18	लोन अगेनेस्ट प्रापर्टी	2,30,29,042.00
18,96,512.00	19	वाहन अग्रिम	78,265.00
82,30,664.00	20	ओव्हर ड्राफ्ट अगेस्ट प्रापर्टी	1,48,88,398.42
18,15,11,847.01		योग	20,21,22,494.33
		स्थिर अस्तियों	
3,74,490.00	01	भूखण्ड	3,74,490.00
4,92,777.00	02	फर्नीचर	4,43,499.00
1,05,519.00	03	कम्प्युटर व सॉफ्टवेयर	63,312.00
38,487.00	04	बुलेरो	32,714.00
10,11,273.00		योग	9,14,015.00
		प्राप्य ब्याज अमानतों पर	
14,15,203.00	01	प्राप्य ब्याज सरकारी प्रतिभूति	14,14,559.00
2,73,608.00	03	प्राप्य ब्याज एफ. डी. सेन्ट बैंक	0.00
2,73,124.00	04	प्राप्य ब्याज सूर्योदयल स्मॉल फायनेंस बैंक	43,750.00
43,750.00	05	प्राप्य ब्याज डबल डिपाजिट इक्विटी बैंक	88,837.00
82,972.00	06	प्राप्य ब्याज उत्कर्ष बैंक मियादी अमानत	2,23,910.00
20,88,657.00		योग	18,14,806.00
34,27,59,073.48		योग आगे ले गये	36,59,01,227.73

किसी ने धोखे से आपके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए हैं तो तुरन्त बैंक को सूचित करें ।



पिछले वर्ष की बाकी 23-24		दायित्व	वर्ष 31.03.2025
35,23,89,173.89		पिछला योग आगे लाये	37,57,63,968.74
35,23,89,173.89		महायोग	37,57,63,968.74

राधेश्याम चौहान

प्रबंधक

श्रमिक नागरिक सह. बैंक लि. इंदौर

किसी भी स्कीम में पैसे डालने से पहले स्कीम की अच्छी तरह से जाँच परख कर लें ।



पत्रक 31 मार्च 2025

पिछले वर्ष की बाकी 23-24		सम्पत्तियां	वर्ष 31.03.2025
34,27,59,073.48		पिछला योग आगे लाये	36,59,01,227.73
		ब्याज बाकी कर्ज	
38,89,454.55	01	ब्याज बाकी हाउसिंग ऋण	40,84,749.55
6,46,764.00	02	ब्याज बाकी स्वनियोजित ऋण	6,93,881.00
12,35,211.00	03	ब्याज बाकी उपभोग ऋण	12,76,290.00
1,53,560.46	04	ब्याज बाकी किराना व्यापार ऋण	1,53,560.46
12,469.00	05	ब्याज बाकी वाहन परिचालन ऋण	13,614.00
24,08,228.00	06	ब्याज बाकी सी.सी. ऋण	24,66,651.00
3,77,455.00	07	ब्याज बाकी शिक्षा ऋण	3,01,034.00
1,19,423.00	08	ब्याज बाकी मीडियम टर्म बिजनेस लोन	43,778.00
3,14,546.60	09	ब्याज बाकी ओव्हर ड्राफ्ट लोन	3,96,488.00
1,37,167.00	10	ब्याज बाकी लांग टर्म बिजनेस लोन	0.00
	11	ब्याज बाकी गोल्ड लोन	699.00
92,94,278.61		योग	94,30,745.01
		अन्य	
23,111.00	01	स्टेशनरी स्टॉक इन हेण्ड	59,716.00
69,200.00	02	अग्रिम	79,700.00
2,00,580.80	03	जीएसटी रिसिवल	2,60,000.00
42,930.00	04	ए.टी.एम. डेबिट कार्ड	32,580.00
3,35,821.80		योग	4,31,996.00
35,23,89,173.89		महायोग	37,57,63,968.74

ए.पी.एस. बिलोदिया
सहायक आयुक्त सहकारिता एवं प्रशासक
श्रमिक नागरिक सह. बैंक लि. इंदौर

राकेश खण्डेलवाल एण्ड एसोसिएट्स कम्पनी (CA)
एफ.आर.एन. नं. 003108C
(सी.ए. राकेश खण्डेलवाल)
पार्टनर मेम्बरशीप नं. 072259

आर.बी.आई. कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए ।



श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इंदौर

प्रस्तावित बजट वर्ष 2026-2027

कं.	आय मद	रकम	कं.	व्यय मद	रकम
1.	ब्याज प्राप्त होगा अमानतों पर	83,50,000.00	1.	ब्याज देना होगा अमानतों पर	1,78,00,000.00
2.	ब्याज प्राप्त होगा कर्जों पर	2,15,80,000.00	2.	पोस्टेज एवं टेलिफोन	50,000.00
3.	विविध आय	1,00,000.00	3.	वेतन व भत्ते, कमीशन	60,00,000.00
4.	लॉकर्स किराया	28,000.00	4.	रेंट रेटस एव टेक्सेस	1,50,000.00
5.	चौकसी मण्डल	15,000.00	5.	बीमा	6,00,000.00
6.	डाक्यूमेंटेशन आय	15,000.00	6.	बैठक भत्ता	50,000.00
7.	पास बुक एण्ड चैकबुक आय	10,000.00	7.	बैठक खर्च	25,000.00
			8.	यात्रा भत्ता	30,000.00
			9.	वाहन भत्ता	20,000.00
			10.	स्टेशनरी एण्ड प्रिंटिंग	50,000.00
			11.	साधारण सभा खर्च	5,00,000.00
			12.	कोर्ट खर्च	50,000.00
			13.	वकील फी	75,000.00
			14.	घसारा	1,00,000.00
			15.	ग्रंथालय एवं समाचार पत्र	5,000.00
			16.	प्रकाशन व विज्ञापन खर्च	50,000.00
			17.	अंकेक्षण शुल्क	4,00,000.00
			18.	किरकोल खर्च	75,000.00
			19.	स्वागत खर्च	25,000.00
			20.	रिपेयर खर्च	1,00,000.00
			21.	सॉफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर खर्च	8,00,000.00
			22.	दीपावली खर्च	50,000.00
			23.	स्थापना खर्च	10,000.00
			24.	फेडरेशन चंदा	10,000.00
			25.	जिला सहकारी संघ चंदा	15,000.00
			26.	वाहन वसूली खर्च	1,00,000.00
			27.	जी.एस.टी. खर्च	1,50,000.00

अपना पासवर्ड, पिन या ओटीपी किसी को शेयर न करें ।



क्र.	आय मद	रकम	क्र.	व्यय मद	रकम
			28.	ग्रेच्युटी	3,00,000.00
			29.	बोनस एवं एक्सग्रेसिया	1,00,000.00
			30.	अर्जित अवकाश समर्पण	1,50,000.00
			31.	लीजरेंट एवं संपत्तिकर	25,000.00
			32.	प्रोफेशनल टेक्स	2,500.00
			33.	प्रशिक्षण	25,000.00
			34.	सी.आय.सी.वार्षिक शुल्क	50,000.00
			35.	फर्नीचर	50,000.00
			36.	चाटेड अकाउन्टेन्ट फीस	75,000.00
			37.	मानक संपत्ति	50,000.00
			38.	बिजली बिल खर्च	75,000.00
			39.	अन्य बैंक खाते मेंटेनेंस चार्जेस	10,000.00
			40.	आयकर	8,00,000.00
			41.	लाभ	11,70,500.00
	महायोग	3,00,98,000.00		महायोग	3,00,98,000.00

बैंक द्वारा सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ एवं विशेषताएँ

1. ग्राहकों के लिए लॉकर सुविधा | व्यवहार का सुविधाजनक समय |
2. जमा राशियाँ डिपॉजिट एवं क्रेडिट ग्यारंटी निगम द्वारा सीमा नियमों के अन्तर्गत बीमित |
3. अमानतों पर 4,000.00 रुपये या अधिक ब्याज प्राप्त होने पर टीडीएस की छूट का लाभ ले सकते हैं |
4. व्यापारियों, छोटे दुकानदारों को बचत के मान से प्रतिदिन दैनिक लघु बचत योजना में एक निश्चित राशि जमा करने की सुविधा आकर्षक ब्याज दर पर |
5. न्यूनतम ब्याज दर पर व्यापार, मकान कार्य एवं गोल्ड लोन उपलब्ध है |
6. सदस्य बैंक कार्यालय में आकर अपने खाते पर (KYC)/मोबाईल नं. अपडेट करावें व मोबाईल बैंकिंग का लाभ लें |

कर्ज लेकर समय पर जमा करे, अपनी पहचान बनावे ।



श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इंदौर

31.03.2025

Details regarding disclosure norms prescribed for UCBs

S.No.	Particulars			Reamarks	
1.	Capital to Risk Weight Asset Ratio (CRAR)			23.20%	
2.	Movement is CRAR				
	As on 31.03.2024	As on 31.03.2025		Movements	
	23.38%	23.20%		0.18%	
3.	Investments			(Rs. In Lakhs)	
	Investment in Gov. Securities	Book Value		Face Value	Market Value
		784.12		795.10	797.28
4.	Details of Non SLR Investments			(Rs. In Lakhs)	
	Fixed deposits in public sector banks			124.20	
	Liquid Fund			270.00	
5.	Non Performing Investment			NIL	
6.	Advances against real estate, construction business			NIL	
7.	Advances against share & debenture			NIL	
8.	To Director, their relatives, companies/firms in which they are interested			NIL	
9.	Cost of Deposits : Average cost deposits			5.50%	
10.	NPA :- a- Gross NPA : b- Net NPA			86.89 (4.30%) 0.00 (0.00%)	
	Movements In NPAs			(Rs. In Lakhs)	
	Gross : NPAs the beginning of accounting year			125.03	
	Add :- Addition during the Accounting year			62.55	
	Less :- Reduction during the accounting year			100.69	
	Net :- NPAs at the end of accounting year			86.89	
11.	Provision made towards NPA's depreciation in investments, Standard Assets and				
	Movements therein				
	Particular	As on 31.03.2024	As on 31.03.2025	Movement	
	NPA	189.96	191.96	+2.00	
	Depreciation in investment	5.50	5.50	—	
	Standard Assets	5.00	5.00	—	
12.	Profitability				
	a- Interest income as percentage of working fund			7.14 %	
	b- Non-Interest income as a percentage of working fund			0.61 %	
	c- Operating profit as a percentage of working fund			1.07 %	
	d- return on assets			8.81 %	
	e- Business (Deposit + Advances) per employe			Rs. (370.89 + 252.65) 623.54	
	f- Profit per employee			Rs. 3.95	
13.	Foreign Currency Assets and liabilities			NIL	
14.	Payments of DICGC Insurance Premium			Rs. 4,07,073.00	
15.	Penalty imposed by RBI			NIL	
16.	Restructured Accounts			No accounts have been restructured during the year.	

राधेश्याम चौहान
प्रबंधक
श्रमिक नागरिक सह. बैंक लि. इंदौर

राकेश खण्डेलवाल एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. नं. 003108C
(सी.ए. राकेश खण्डेलवाल)
पार्टनर मेम्बरशीप नं. 072259



श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इन्दौर

123, देवी अहिल्या मार्ग श्रम शिविर इन्दौर

अंकेक्षण प्रमाण-पत्र

मैं, सीए. राकेश खण्डेलवाल, पार्टनर मेसर्स राकेश खण्डेलवाल एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स इन्दौर, अधिकृत अंकेक्षक प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इन्दौर, पंजीयन क्रमांक 156/77 दिनांक 30.08.1977 का भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के आदेश क्रमांक (BPL.DOS.SED.No. S-273/12-07-030/2024-25) दिनांक 27 सितम्बर 2024 के आदेश के अन्तर्गत मुझे बैंक का अंकेक्षण वर्ष 2024-25 का करने का अधिकृत किया गया। मेरे द्वारा अंकेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक एवं पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित /निर्देशित प्रणाली से पूर्ण किया गया है।

बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र विधिवत सही व नियमानुसार होकर बैंक द्वारा सुरक्षित रखा गया है। मैंने श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इन्दौर के दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के स्थिति विवरण पत्रक तथा लाभ हॉनि पत्रक का परीक्षण संबंधी लेखाओं से किया। यह वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन का उत्तर दायित्व है मेरा उत्तरदायित्व इन विवरणों पर मेरे अंकेक्षण के आधार पर विचार व्यक्त करना है।

मैंने मेरा अंकेक्षण भारत में सामान्य रूप से मान्य अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों से मुक्ति के प्रति उचित आश्वासन प्राप्त हेतु हम अंकेक्षण नियोजित एवं निष्पादित करें। अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में उल्लेखित रकमों एवं तथ्यों का समर्थित साक्ष्यों का “चयन आधारित परीक्षण” शामिल है। प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों के निर्धारण एवं लगाये गये आवश्यक प्राकलनों के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण का आकलन भी अंकेक्षण में शामिल है। मुझे विश्वास है कि मेरा दृष्टिकोण बनाने हेतु मेरा अंकेक्षण पर्याप्त आधार प्रदान करता है।

मैं यह सूचित करता हूँ कि-

1. मेरे मत में बैंक का व्यवहार साधारणतः सही व इमानदारी से बैंक के उपनियमों, सहकारी समितियों की प्रचलित धाराओं, उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, पंजीयक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित परिपत्रों एवं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धाराएँ (जो कि सहकारी बैंकों के लिए लागू होती हैं) के अनुसार है व पाई गई त्रुटियों का उल्लेख अंकेक्षण टीप में आक्षेप के रूप में किया गया है।



श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इंदौर

2. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक पूर्ण रूप से स्पष्ट है। इसमें सभी आवश्यक जानकारियों जो कि बैंक के व्यवहार और स्थिति दर्शाते हैं, का समावेश भी किया गया है। मुझे जो जानकारी बैंक की स्थिति के संबंध में बतलायी गई तथा जो जानकारी अधिकोष के लेखापत्रों (खातों) में दर्शाई गई है वह सब इसमें परिलक्षित होती है।

3. मुझे अंकेक्षण के दौरान किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण की जब भी आवश्यकता पड़ी समय-समय पर बैंक से प्राप्त हुई है।

4. अधिकोष के व्यवहार जो मेरी जानकारी में आए, प्रस्तुत टीप के अधीन अधिकोष के कार्यों की सीमा में हुए।

5. अधिकोष का लाभ हानि पत्रक प्रस्तुत टीप के अधीन शुद्ध लाभ का सही विवरण प्रस्तुत करता है।

6. मेरे मत में अधिकोष के स्थिति विवरण व लाभ हानि पत्रक, प्रस्तुत टीप के अधीन नियमानुसार बनाये गये हैं तथा हिसाब व खाते नियमों व उपनियमों की आवश्यकतानुसार रखे गये हैं। ऐसे सभी रखे गये रजिस्टर व खाता बहियों जिनके आधार पर पत्रक तैयार किये गये हैं, की सूची बैंक में उपलब्ध है। बैंक ने रिजर्व बैंक द्वारा लागू किये गये प्रुडेंशियल नार्मस का पालन किया है।

अतः मैं, अधिकोष को पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश द्वारा प्रसारित निर्देशों में दी गई अंकेक्षण वर्गीकरण कसोटियों के मानदण्ड के आधार पर मूल्यांकन करते वर्ष 2024-25 के अंकेक्षण में बैंक को 'अ' वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ।



वास्ते : राकेश खण्डेलवाल एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

एफ.आर.एन. नं. 003108C

सी.ए. राकेश खण्डेलवाल
पार्टनर

मेम्बरशीप नं. 072259

UDIN : 25072259BMJMW14376

श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इंदौर

TOP 25 NPAs ACCOUNTS

(रु.लाखों में)

क्र.	खाता क्रमांक	ऋणी का नाम	पता	ऋण दिनांक	ऋण रकम	बाकी रकम	एनपीए दिनांक
1	61006856	श्रीमती प्रेमलता ओमप्रकाश शर्मा	574भागीरथपुरा इन्दौर	30.03.1998	0.40	2.00 लाख	31.12.1998
2	21002016	वास्ते विकास सप्लायर्स पीडी जाटवा	143/2 नेहरुनगर इंदौर	08.02.2001	1.40	6.18 लाख	30.09.2002
3	210007273	भामरे ज्वेलर्स मनोहर भामरे	80/2 नंदा नगर इंदौर	02.08.2001	2.00	6.01 लाख	31.03.2003
4	210008011	श्री साईनाथ ज्वेलर्स	24/1 नंदा नगर इंदौर	02.08.2002	2.00	5.36 लाख	29.04.2004
5	690005074	श्री श्रवणकुमार हीरामण शिन्दे	465 कुलकर्णी का भट्टा	14.10.2002	1.00	3.51 लाख	30.12.2002
6	610008309	श्रीमती आशाबाई कृष्णगोपाल	318 ई 15/4 स्कीम नं.78	30.07.2003	0.80	2.19 लाख	30.05.2006
7	610003201	श्री मोहनसिंह हीरासिंह ठाकुर	862 सी सुखलिया इंदौर	01.05.2008	4.50	10.59 लाख	31.03.2011
8	610010083	श्री आनन्द मोहनसिंह ठाकुर	862 सी सुखलिया इंदौर	03.05.2010	2.00	5.00 लाख	31.01.2011
9	610010180	श्रीमती ज्योति प्रकाश ढाकणे	797/9नन्दानगर इन्दौर	02.12.2010	4.50	2.89 लाख	02.09.2016
10	700000009	श्री कैलाशसिंह बाबूसिंह चौहान	69/1 नन्दानगर इन्दौर	05.10.2011	3.50	6.48 लाख	30.10.2017
11	610010397	श्री रामेश्वर मांगीलाल प्रजापत	1207 भागीरथपुरा इंदौर	27.10.2015	5.00	13.57 लाख	26.01.2016
12	67010946	श्री अनिल कामले	14 पाटनी पुरा इंदौर	22.11.2017	0.25	0.39 लाख	22.03.2019
13	69000337	श्री अवधबिहारी मटरूलाल यादव	1041भागीरथ पुरा इंदौर	17.03.2016	5.00	0.73 लाख	28.03.2021
14	69000383	श्री देवीसिंह नाथूसिंह चौहान	800 न्यू गौरी नगर इंदौर	19.05.2017	5.00	1.24 लाख	18.12.2019
15	69000412	श्री चुन्नीलाल शंकरलाल प्रजापत	282/11परदेशीपुरा इंदौर	08.02.2018	5.00	2.27 लाख	10.04.2021
16	61010565	श्री चंचल दारकुण्डे	60/33 न्यू देवास रोड इंदौर	11.07.2018	3.50	1.80 लाख	11.04.2023
17	61010602	श्रीमती धन्नोबाई राजू यादव	370 शिवाजी नगर इंदौर	28.12.2018	5.00	2.89 लाख	27.04.2021
18	21000033	श्री मंयक डिजाइनर्स देवीदास पमनानी	145 ईमली बाजार इन्दौर	01.02.2019	5.00	7.45 लाख	01.03.2020
19	69000468	श्री नाथूलाल गोरेलाल चाचोरे	775 न्यू गौरी नगर इंदौर	08.04.2019	5.00	4.57 लाख	08.03.2021
20	22000308	मरीन ट्रेड लिक्स वर्पा देवीदास पमनानी	145 ईमली बाजार इंदौर	08.07.2019	5.00	9.05 लाख	31.10.2019
21	43010006	श्री जयप्रकाश चाचोरे	775 न्यू गौरी नगर इंदौर	06.08.2019	5.00	3.28 लाख	05.09.2023
22	43010042	श्री मुकेश चुन्नीलाल प्रजापत	282/11परदेशीपुरा इन्दौर	03.03.2020	5.00	2.54 लाख	03.04.2023
23	43010012	श्री संदिप जायसवाल	942 भागीरथ पुरा इंदौर	09.09.2019	5.00	3.06 लाख	09.10.2024
24	43010067	श्रीमती पूनम गौड	ई 83/4 लवकुश विहार इंदौर	09.10.2020	4.50	2.73 लाख	09.07.2024
25	43010106	श्री मोहन कालूराम जोशी	33 सोमनाथ की नई चाल इंदौर	02.05.2022	6.00	4.41 लाख	02.05.2025

वसूली

बैंक द्वारा सदस्यों को जिस प्रकार आसान शर्तों पर शीघ्रता से ऋण दिया जा रहा है वही बैंक वसूली के लिये भी पूर्ण सजग है । वसूली अभियान के अन्तर्गत अनियमित सदस्यों को नोटिस, दावा कुर्की कार्यवाही के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क कर बैंक कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत प्रभाव से वसूली की जा रही है । गत वर्ष नेट एन.पी.ए. 0.00 प्रतिशत था जो कि इस वर्ष 0.00 प्रतिशत है । ग्रास एन.पी.ए. 4.30 प्रतिशत है ।

एन.पी.ए. खातेदारों से निवेदन है कि कृपया ऋण रकम जमा कर बैंक को सहयोग प्रदान करें तथा अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखें ।

सायबर धोखाधड़ी आपको चौका सकती है इसलिये अनजान लिंक पर क्लिक न करें ।



श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लि. इंदौर

श्रम शिविर, 123, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर- 452 003 (म.प्र.)

Phone : 0731-2534604, 4875102

E-mail : snk.indore@gmail.com

www.shramiknagrikbank.com

समृद्धि आपकी - योजनाएँ हमारी

- मकान तारण ऋण
- अचल सम्पत्ति के बंधक पर ऋण
- व्यापार/लघु उद्योग हेतु ऋण
- वाहन ऋण
- गोल्ड लोन

11%

हम सपने नहीं दिखाते, साकार करते हैं...

खुशियों के रंग, श्रमिक गोल्ड लोन के संग



सोने की बड़ी हुई कीमत के अनुकूल ज्यादा ऋण पाएं।
गोल्ड लोन के लिए सदस्यता होना आवश्यक नहीं है।

मकान निर्माण, क्रय, मरम्मत, कार ऋण, वाहन ऋण, सोना आभूषण ऋण, व्यापारिक ऋण एवं लिमिट सुविधा न्यूनतम ब्याज दर पर लेकर अपने व्यापार व्यवसाय की उन्नति करें।

नोट : ब्याज गणना डेली रिड्यूसिंग बेलेंस पर समय पूर्व ऋण खाता बंद करने पर कोई पेनल्टी नहीं।

ए.टी.एम./रुपे डेबिट कार्ड



पोस एवं ई-कॉम सुविधा



मोबाईल बैंकिंग सुविधा



यूपीआई सुविधा



अमानतो पर देय ब्याज

क्र.	विवरण	सामान्य ब्याज दर	वरिष्ठ नागरिकों के लिए
01.	30 दिन से अधिक किन्तु 12 माह तक के लिये	4.50%	5.00%
02.	12 माह 1 दिन से अधिक किन्तु 5 वर्ष तक के लिए	5.00%	5.50%
03.	5 वर्ष 1 दिन से अधिक के लिये	6.00%	6.50%

विशेष स्कीम : - 444 दिनों के लिए मियादी अमानत जमा पर सामान्य नागरिकों के लिए 7% एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज देय।* शर्तें लागू